

**CPAN-01**

June - Examination 2016

**Certificate in Applied Nutrition Examination****प्राथमिक पोषण और आहार विज्ञान****Paper - CPAN-01****Time : 3 Hours ]****[ Max. Marks :- 100**

**निर्देश :** यह प्रश्न पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

(खण्ड - अ)

 $10 \times 2 = 20$ 

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

**निर्देश :** खण्ड-अ में दस अतिलघुतरीय प्रश्न होंगे (एक शब्द, एक वाक्य और परिभाषात्मक प्रकार के) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हर प्रश्न 2 अंकों का होगा और प्रत्येक उत्तर की अधिकतम सीमा 30 शब्द होगी। इस खण्ड का अधिकतम अंक 20 होगा।

1) परिभाषित कीजिए।

- (i) पाचन
- (ii) संतुलित आहार
- (iii) विटामिन
- (iv) चयापचय

(v) साधारण या कम क्रियाशीलता

(vi) ऊर्जा संतुलन

(vii) निकृष्ट प्रोटीन

(viii) सूखा रोग

(ix) फ्लोरीन

(x) धनात्मक जल सन्तुलन

**(खण्ड - ब)**

**$4 \times 10 = 40$**

**(लघु उत्तरीय प्रश्न)**

**निर्देश :** खण्ड-ब में 8 (आठ) लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को कोई 4 (चार) प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न 10 (दस) अंकों का होगा और प्रत्येक उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द होगी। इस खण्ड का अधिकतम अंक 40 होगा।

- 2) ऊर्जा प्रदान करनेवाले भोज्य पदार्थों का उल्लेख कीजिए।
- 3) पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए।
- 4) पोषक तत्व अवशोषण की क्रिया समझाइए।
- 5) कुपोषण का अर्थ समझाइए।
- 6) विटामिन 'डी' के कार्य बताइए।
- 7) प्रोटीन की कमी के प्रभाव समझाइए।
- 8) रक्त अल्पता के कारण समझाइए।
- 9) शरीर से जल के निष्कासन कैसे होता है?

## (खण्ड - स)

 $2 \times 20 = 40$ 

## (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

**निर्देश :** खण्ड-स में 4 (चार) दीर्घउत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें आंतरिक चयन की सुविधा भी होगी। परीक्षार्थी को कोई 2 (दो) प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 (बीस) अंको का होगा और प्रत्येक उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द होगी। इस खण्ड का अधिकतम 40 अंक होगा।

- 10) सोडियम का कार्य, स्रोत तथा कमी का प्रभाव विस्तार से समझाइए।
  - 11) जल घुलनशील विटामिन क्या हैं इनका महत्व उदाहरण सहित समझाइए।
  - 12) भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करनेवाले कारकों का उल्लेख कीजिए।
  - 13) स्कूल पूर्व बालकों में कुपोषण तथा बचाव के लिए पूरक आहार पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
-